

INDEX

**(RTI Queries & Responses of IT division – First Quarter of 2016-17
(1st April, 2016 to 30th June, 2016)**

S.No.	Name of the Applicant	Page No.
1.	Shri Rajshekhar Yadav [ONLINE]	2-5

ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.DOTEL/R/2016/80143/2				
Applicant Name		Rajshekhar Yadav		
Text of Application		Request transferred u/s 6(3) of the RTI Act, 2005. He has asked to approach the concerned Public Authorities directly for the queries of attachment.		
Reply of Application		The information pertaining to IT division is attached.		
SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	RTI REQUEST RECEIVED	30/03/2016	Nodal Officer	DOTEL/R/2016/80143
2	REQUEST FORWARDED TO CPIO	30/03/2016	Nodal Officer	Forwarded to CPIO(s) :
3	REQUEST DISPOSED OF	26/04/2016	Vinai Kanaujia, Dir(IT-V)-(CPIO)	

आदरणीय ,

मुझे मेरे सवाल के जबाब हिंदी और ऑनलाइन चाहिए | मैं अपने सवाल में उदहारण भी दूंगा आपको अपने प्रश्न को समझने में | कृपया करके मेरे दिए बिन्दुओ को पड़े और सही जानकारी प्रदान करें | कृपया करके जानकारी अपने कार्यालय में ऑनलाइन ही दे | यदि आप लोग जानकारी नहीं दे सकते कारण के साथ बताये |

- १) वरिष्ठ नागरिको की उम्र की सीमा क्या है | कौन से विभाग उसे नहीं अपनाते | कृपया करके जानकारी प्रदान करे |
- २) MTNL और BSNL ने अपने उत्पादों के लिए वरिष्ठ नागरिको की क्या सीमा रखी है |
- ३) BSNL में दूरभाष के नाम को कैसे बदला जा सकता है | उसके लिए कौन से फॉर्म का उपयोग होता है | क्या कोई ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है जानकारी दे |
- ४) कितने लोगो ने दूरभाष के नाम बदलने के लिए आवेदन दिया दिसंबर 2015 से अब तक | मुझे सूची चाहिए राज्यों के अनुसार और कितने दिनों में यह कार्य कर लिया गया |
- ५) आप के वेबसाइट पर अधिकारियो की जानकारी कितने दिनों में बदली जाती है |
- ६) हिंदी और अंग्रेजी की वेबसाइट में क्या असमानता है उसका करना सहित जानकारी दे |
- ७) ऑनलाइन शिकायत का क्या माध्यम है और उसी शिकायत की सही समाधान न मिलने पर कहा पर सुनवाई के लिए भेजा जा सकता है |
- ८) मछली शहर दूरभाष केंद्र में सूचना और शिकायत पटल का सांकेतिक परिदृश्य बताये या मुझे चित्रण के जरिये जानकारी कैसे मिलेगी बताये |
- ९) आप के मछलीशहर में CCTV लगा है की नहीं | आप लोग दूरभाष केंद्र की निगरानी कैसे करते है |
- १०) मछलीशहर दूरभाष केंद्र के कार्यालय का समय क्या है | उन समय में क्या -२ किया जा सकता है उसका विवरण दे |

११) मछलीशहर दूरभाष केंद्र से बील की प्राप्ति कैसे की जा सकती है | उदहारण :- क्योंकि हमें बिल न तो डाक से मिलती है न ही केंद्र से |

१२) आप लोग डिजिटल इण्डिया या तकनीक भारत को अपनाते हैं की नहीं जानकारी दे |

१३) मेरे द्वारा मांगे गए सूचना को आप लोग ऑनलाइन देंगे की नहीं जानकारी प्रदान करे |

आप लोग तकनीक भारत और अच्छे विभाग का परिचय देते हुए सारे कार्य ऑनलाइन ही करेंगे यदि नहीं कर सकते तो उसका कारण अस्पष्ट करेंगे | आशा है आप लोग हमें सहयोग करेंगे जानकारी प्रदान करने में |



दूरसंचार विभाग के आई टी सैल से संबन्धित सूचना, बिन्दु-वार, निम्नानुसार है:-

(5) दूरसंचार विभाग की वैबसाइट (www.dot.gov.in) के संबंध में सामग्री का अभिरक्षक (कस्टोडियन) दूरसंचार विभाग की संबन्धित शाखा / विभाग का अध्यक्ष होता है और वैबसाइट की सामग्री को या तो सीधे ही अभिरक्षक द्वारा अथवा सामग्री जब और जैसे अभिरक्षक से प्राप्त हो तब दूरसंचार विभाग के आई टी सैल द्वारा अद्यतन की जाती है।

(6) यहाँ यह उल्लेख करना है कि सीपीआईओ को आरटीआई अधिनियम, 2005 के भाग 2(च) के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करनी होती है जो अभी तक उपलब्ध हो और जो ठोस रूप में सरकारी प्राधिकारी के पास हो। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीपीआईओ सूचना का सृजन नहीं करता; अथवा सूचना कि व्याख्या नहीं करता; अथवा आवेदक द्वारा रखी गयी समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता अथवा ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता जो संपुष्टि/स्पष्टीकरण/औचित्य सिद्ध करने कि प्रकृति के हों।

तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि दूरसंचार विभाग की वैबसाइट सभी की सुलभ पहुँच के लिए वेबलिक <http://www.dot.gov.in> पर उपलब्ध है।

(12) यहाँ यह उल्लेख करना है कि सीपीआईओ को आरटीआई अधिनियम, 2005 के भाग 2(च) के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करनी होती है जो अभी तक उपलब्ध हो और जो ठोस रूप में सरकारी प्राधिकारी के पास हो। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीपीआईओ सूचना का सृजन नहीं करता; अथवा सूचना कि व्याख्या नहीं करता; अथवा आवेदक द्वारा रखी गयी समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता अथवा ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता जो संपुष्टि/स्पष्टीकरण/औचित्य सिद्ध करने कि प्रकृति के हों।

तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि दूरसंचार विभाग का आई टी सैल, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आई टी सैल से संबन्धित मदों पर आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

(13) ऑनलाइन सूचना मांगने पर, दूरसंचार विभाग का आई टी सैल, ऑनलाइन सूचना ही प्रदान करता है।